



स मा चार

मध्यप्रदेश विधान सभा में कृषि विकास समिति सहित अन्य सदन समितियों का गठन

भोपाल: 14 अगस्त, 2015

वर्ष 2015-2016 की अवधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा में सदन समितियों के गठन के क्रम में विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा कृषि विकास समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति सहित पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का गठन किया गया है। कृषि विकास समिति का गठन मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रथमबार किया गया है।

विधान सभा अध्यक्ष ने विधायक चौधरी चन्द्रभान सिंह को कृषि विकास समिति का सभापति नियुक्त किया है। विधायकगण सर्वश्री रणजीत सिंह गुणवान, नाना भाऊ मोहोड़, मेहरबान सिंह रावत, बहादुर सिंह चौहान, गोविंद सिंह पटेल, मुरलीधर पाटीदार, लखन पटेल, कमलेश्वर पटेल, शैलेन्द्र पटेल तथा श्री सौरभ सिंह इस समिति के लिए सदस्य नामांकित किए गए हैं।

विशेषाधिकार समिति के सभापति श्री कैलाश चावला होंगे। सर्वश्री रामनिवास रावत, बाला बच्चन, मुकेश नायक, जयसिंह मरावी, संजय पाठक, संजय शर्मा, सज्जन सिंह उइके, कल्याण सिंह ठाकुर तथा श्री सूर्यप्रकाश मीना इस समिति के लिए सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए गए हैं।

नियम समिति में श्रीमती रंजना बघेल, सर्वश्री ओमप्रकाश सखलेचा, भंवर सिंह शेखावत, हर्ष सिंह, नरेन्द्र सिंह कुशवाह, चंपालाल देवड़ा, जितू पटवारी, मनोज कुमार अग्रवाल तथा श्री निशंक कुमार जैन सदस्य नामांकित किए गए हैं। विधि और विधायी कार्य मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदले समिति की पदेन सदस्य तथा विधान सभा अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

श्रीमती अर्चना चिटनिस पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति की सभापति होंगी। सर्वश्री राजेन्द्र दादू, हजारीलाल दांगी, नथन शाह कवरेती, महेन्द्र बागरी, महेश राय, सत्यपाल सिंह सिकरवार, रमेश पटेल, कमलेश शाह, प्रताप सिंह तथा श्रीमती ममता मीना इस समिति के सदस्य नामांकित किए गए हैं।

म.प्र./वि.स./ज.स./15

(मुकेश मिश्रा)
सूचना अधिकारी